



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]
No. 169]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 15, 2007/माघ 26, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2007/MAGHA 26, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 234(अ).—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाउल्लिखित संस्थाओं का एतद्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः :-

सारणी

क्रम सं.	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1	2	3	4
1.	आर्य अनाथालय, 1488, पटौदी हाऊस, दरियागंज, नई दिल्ली-110002	उत्कर्ष (5 से 13 वर्ष के बीच के आयु समूह के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास)	वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 22.86 करोड़ रुपए।
2.	सेन्टर फॉर वोलेंटरी सर्विसेज, पो. आ. कोकराझार, जिला कोकराझार, असम-783370	सुअर पालन विकास	वित्तीय वर्ष 2006-07 और 2007-08 अर्थात् केवल दो वर्षों के लिए 1.50 करोड़ रुपए।

3.	एग्रोक्रेटस सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, सी-505, फेस-2, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492006	किसानों के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन का कार्यक्रम- “ ए एस ओ आर डी बड़ी मॉडल” के माध्यम से गहन ग्रामीण विकास	वित्तीय वर्ष 2006-2007 और 2007-08, 2008-2009 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 13.69 लाख रुपए ।
4.	कावंत एजुकेशन सोसायटी, डॉन बोस्को फार्म, कावंत जिला-बड़ौदा, 391170 (गुजरात)	एकीकृत सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कावंत	वित्तीय वर्ष, 2006-2007 और 2007-2008 के लिए 2,81,55,020/- रुपये वित्तीय वर्ष 2005-06 पहले ही समाप्त चुका और कोई अनुदान वित्तीय वर्ष में एकत्रित नहीं किया जा सकता ।
5.	केयर इंडिया मेडिकल सोसायटी, एच-1/13, सालुंके विहार, पुणे 411048 (महाराष्ट्र)	“ विश्रान्ति” गंभीर कैंसर पेलेटिव केयर सेंटर	वित्तीय वर्ष 2006-2007, 2007-08 और 2008-2009 अर्थात् मात्र तीन वर्षों की अवधि के लिए 6.69 करोड़ रुपए ।
6.	दी पूना ब्लाइंड मैन्स एसोसिएशन, 82, रास्ता पेठ पुणे 411011 (महाराष्ट्र)	पी बी एम ए कांतालक्ष्मी शाह चक्षु हॉस्पिटल	वित्तीय वर्ष 2006-2007, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् तीन वर्षों की अवधि के लिए 7.33 लाख रुपए
7.	श्री सदगुरु साई शंकर ट्रस्ट पो0 बा0 सं0 1, प्रशांति निलया, पोन्नमपेट 571216 कोडगु जिला (कर्नाटक)	दृष्टि फाउन्डेशन (नेत्रहीनों की सेवा के लिए) साई प्रेमा कुटीरा (अनाथालय)	वित्तीय वर्ष 2006-2007, 2007-08 और 2008-09

		एडस विरोधी जागरूकता महिला/बाल विकास कार्यक्रम आवासीय इकाइयां वनीकरण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम	अर्थात् तीन वर्षों की अवधि के लिए 5.00 करोड़ रुपए
8.	श्रीमती पारसनबेन नारनदासरामजी शाह (तलाजवाला) सोसायटी फार रिलीफ एंड रिहैबिलीटेशन आफ दी डिसएबल्ड 51, विद्यानगर, भावनगर (गुजरात)	मुफ्त पोलियो आपरेशन, मोतियाबिंद आपरेशन शिविर आदि, जैसे शारीरिक रूप से असहाय गरीब लोगों के पुनर्वास हेतु मुफ्त कृत्रिम अंग प्रबंधन करने जैसी वर्तमान गतिविधियों का विस्तार और सहयोग	वित्तीय वर्ष 2006-2007 और 2007-08, 2008- 2009 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 5 करोड़ रुपए ।
9.	इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट महात्मा गांधी हॉस्पिटल द्वारा जयपुर फर्टिलिटी एंड माइक्रोसर्जरी रिसर्च सेन्टर, 40 सिन्धी कालोनी, बनी पार्क, जयपुर 302016(राजस्थान)	महात्मा गांधी अस्पताल का विस्तार	वित्तीय वर्ष 2006-2007 अर्थात् केवल एक वर्ष के लिए 15 करोड़ रुपए ।
10.	ट्राइबल एरियास डेवलपमेंट सोसायटी, ठाकर काम्पलेक्स (नाहरलागुन) जिला पाप्पुरे, (अरुणाचल प्रदेश)	बागवानी विकास के लिए भूमि संरक्षण, मिट्टी के नियंत्रक बांध , वाटर हारवेस्टिंग ढांचा, फार्म तालाब, सामाजिक और कृषि वन, वेजिटेबल चैक बांध, स्टोर्स का निर्माण, शिविर, हट्स और रखरखाव, प्रशिक्षण, कार्यशाला और प्रदर्शन	वित्तीय वर्ष 2006- 2007, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपए ।
11.	रूरल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन नोवाग्राम, मोराप्रपुर 635305, जिला धरमपुर, (तमिलनाडु)	कस्तूरी बाई गांधी विस्तृत विकास परियोजना	वित्तीय वर्ष 2006- 2007, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 7.5 करोड़ रुपए ।
12.	टैगोर सोसायटी फार रूरल	एकीकृत सामुदायिक विकास	वित्तीय वर्ष

	डेवलपमेंट, 46 बी, अरविंद सरनी, कोलकाता 700005 (पुर्बबंगाल)	कार्यक्रम	2006-2007 और 2007-08, 2008-2009 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 60.16 करोड़ रूपए।
13.	शांति समाज सेवी समिति, 2/377, खातरना स्ट्रीट, फरुखाबाद, 209625, (उत्तर प्रदेश)	स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	वित्तीय वर्ष 2006-2007, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 0.714 करोड़ रूपए।
14.	नारुकोट एजुकेशन सोसायटी, नारुकोट जम्बूगोदा, जिला पंचमहल, गुजरात 389390 (गुजरात)	स्थायी आदिवासी विकास	वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 1.81 करोड़ रूपये
15.	जैन सोशल फेडरेशन आनंदक्रषि जी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेन्टर, प्लाट नं० 124, आनंदक्रषि जी मार्ग, अहमदनगर, 414001, (महाराष्ट्र)	प्लांट एवं मशीनरी की खरीद और स्थापना, आधारभूत ढांचे का विस्तार	वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 के लिए अर्थात् केवल दो वर्षों के लिए 11.30 करोड़ रूपये
16.	अरावली ग्रुप, केलवानी मंडल, डाकखाना ग्राम ताकतुंका, तहसील भिलोडा, जिला साबरकांठा, गुजरात 383246 (गुजरात)	विद्यालय भवन का निर्माण और शैक्षिक विकास योजना	वित्तीय वर्ष 2006-07 और 2007-08, और 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 81.20 लाख रूपये
17.	तिरुमलाई चेरिटी ट्रस्ट, तिरुमलाई नगर, वनपदी रोड और डाकखाना, रानीपेट, जिला वेल्लोर, तमिलनाडु 632404 (तमिलनाडु)	व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल	वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 1.45 करोड़ रूपये

18.	न्यू लाईफ, सं० 12, फ्लैट बी, आधियमाम टावर्स सेकेंड क्रॉस, कुमारन नगर, तिरिचापल्ली, 620017 (तमिलनाडु)	त्यागे हुए बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना	वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 6 करोड़ रुपये
19.	श्री मेडिकल एंड एजुकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट ए- 001, एमी अपार्टमेंट, निकट प्रेरणा तीर्थ डेरासर, जोधपुरगाम, सेटेलाइट, अहमदाबाद 380015 (गुजरात)	वृद्धों के लिए धर विकलांगों का पुर्नवास, नशामुक्ति परियोजना, मेडिकल रिलीफ परियोजना, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता	वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 2.66 करोड़ रुपये

2. यह अधिसूचना उक्त सारणी में क्रम सं० 9 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2006-07 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए और क्रम सं० 2, 4 और 15 में उल्लिखित परियोजनाओं अर्थात् स्कीमों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 के संबंध में दो वर्षों की अवधि के लिए और क्रम सं० 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 और 19 में उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2006-2007, 2007-2008 और 2008-2009 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. 33/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

520 E/07-2

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 234(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby approves the institutions mentioned in column (2) of the Table below and specifies the eligible projects or schemes and the estimated cost thereof mentioned in column (3) of the said Table and also specifies in the column (4) of the Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 35AC, namely:-

TABLE

Serial Number	Name of the Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Arya Anathalaya, 1488, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi 110002.	UTKARSH (Hostel accommodation for the students between age group of 5 to 13 years) likely to cost Rs. 22.86 crore.	Rs. 22.86 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09, i.e., for three years only.
2	Centre for Voluntary Services, PO Kokrajhar, District Kokrajhar, Assam – 783370.	Piggery development, likely to cost Rs. 1.50 crore.	Rs. 1.50 crore for financial years 2006-07 and 2007-08, i.e., for two years only.
3	Agrocrats' Society for Rural Development, C-505, Phase- 2, Raipur (Chhattisgarh) –492006.	An intensive approach to rural development through “ASORD Badi Model” – A programme for socio-economic upliftment of peasants, likely to cost Rs. 13.69 crore.	Rs. 13.69 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09, i.e., for three years only.
4.	Kawant Education Society, Don Bosco Farm, Kawant, Baroda	Integrated community development programme, Kawant,	Rs. 2,81,55,020/- for financial year 2006-07 and 2007-08 as the financial year 2005-06 is already

	District -391170, (Gujarat).	likely to cost Rs. 2,81,55,020/-	over and no donation can be collected for that financial year.
5.	Care India Medical Society, H-1/13, Salunke Vihar, Pune 411048, (Maharashtra).	"Vishranti" critical cancer palliative care center, likely to cost Rs. 6.69 crore.	Rs. 6.69 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09, i.e., for three years only.
6.	The Poona Blind Men's Association, 82, Rasta Peth, Pune 411 011, (Maharashtra).	PBMA's Kantalaxmi Shah Eye Hospital, likely to cost Rs. 7.33 crore.	Rs. 7.33 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09, i.e., for three years only.
7.	Sri Sadguru Sai Shankar Trust, P.B. No.01. Prashanthi Nilaya, Ponnampet 571216, Kodagu district, (Karnataka).	Drushti Foundation (service to blind). Sai Prema Kutira (orphanage). Anti AIDS awareness. Women/child Development Programme. Dwelling units. Afforestation. Natural Resources Management Programme, likely to cost Rs. 9.41 crore.	Rs. 5.00 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09, i.e., for three years only.
8.	Smt. Parsanben Narandas Ramji Shah (Talajawala), Society for Relief & Rehabilitation of the Disabled, 51, Vidyanagar, Bhavnagar, (Gujarat).	Extension and support of present activities like conducting free polio operations; cataract operations camp etc; providing free artificial limbs to rehabilitate orthopaedically disabled	Rs. 5 crore for financial years 2006- 07, 2007-08 and 2008-09 i.e for three years only.

- poor people, likely to cost Rs. 5.00 crore.
- 9 India Education Trust- Mahatma Gandhi Hospital, C/o Jaipur Fertility & Microsurgery Research Centre, 40-Sindhi Colony, Bani Park, Jaipur 302016, (Rajasthan) Expansion of Mahatma Gandhi Hospital likely to cost Rs. 15.00 crore. Rs. 15 crore for financial year 2006-07, i.e., for one year only.
 - 10 Tribal Areas Development Society, Takar Complex (Naharlagun), District Papumpare, (Arunachal Pradesh). Soil conservation for horticulture development; earthen check bund; water harvesting structures; farm pond; social and agro forestry; vegetable check bund; construction of stores, camps, huts and maintenance, training, workshops and demonstration likely to cost Rs.20.00 crore. Rs. 10 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09, i.e., for three years only.
 - 11 Rural Integrated Development Organization, Sevagram, Morappur - 635305, Dharmapur District, (Tamilnadu). Kasthuri Bai Gandhi Comprehensive Development Project, likely to cost Rs. 90.00 crore. Rs. 7.5 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09, i.e., for three years only.
 - 12 Tagore Society for Rural Development, 46B, Arabinda Sarani, Kolkata -700 005, (West Bengal). Integrated Community Development Programme, likely to cost Rs. 60.16 crore. Rs. 60.16 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09, i.e., for three years only.
 - 13 Shanti Samaj Sevi Samiti, 2/377, Khatrana Street, Farrukhabad -209625, (Uttar Pradesh). To provide health and employment opportunities, likely to cost Rs. 0.714 crore. Rs. 0.714 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09, i.e., for three years only.
 - 14 Narukot Education Sustainable tribal Rs. 1.81 crore for financial years

- | | |
|----|--|
| | Society, Narukot development, 2006-07, 2007-08 and 2008-09, i.e.,
Jambughoda, district likely to cost Rs. 1.81 crore for three years only.
Panchmahal, crore.
(Gujarat) - 389390. |
| 15 | Jain Social Purchase and Rs. 11.30 crore for financial years
Federation's installation of plant and 2006-07 and 2007-08, i.e., for two
Anandrishiji machinery, expansion of years only.
Hospital & Medical infrastructure, likely to
Research Centre, cost Rs. 11.30 crore.
Plot No. 124,
Anandrishiji Marg,
Ahmednagar 414001.
(Maharashtra). |
| 16 | Aravalli Group Construction of school Rs. 81.20 lakh for financial years
Kelvani Mandal, buildings and 2006-07, 2007-08 and 2008-09,
At & Post: Takatunka educational i.e., for three years only.
Village, Tehsil development scheme,
Bhiloda, likely to cost Rs. 81.20
District Sabarkantha, lakh.
(Gujarat) 383246. |
| 17 | Thirumalai Charity Comprehensive rural Rs. 1.45 crore for financial years
Trust, health care, likely to 2006-07, 2007-08 and 2008-09,
Thirumalai Nagar, cost Rs. 1.45 crore. i.e., for three years only.
Vanapadi Road &
Post,
Ranipet, Vellore
District,
(Tamilnadu) - 632404. |
| 18 | New Life, Ensured child rights to Rs. 6 crore for financial years
No. 12, Flat B, the abandoned children, 2006-07, 2007-08 and 2008-09,
Adhiyamam, likely to cost Rs. 6.00 i.e., for three years only.
Towers, 2 nd Cross, crore.
Kumaran Nagar,
Trichirappalli -
620 017, (Tamilnadu). |
| 19 | Shree Medical & Home for Aged. Rs. 2.66 crore for financial years
Education Charitable Rehabilitation of the 2006-07, 2007-08 and 2008-09,
Trust, A-001, Amee Handicapped. i.e., for three years only.
Apartment, Nr. Prerna De-addiction Project.
Tirth Derasar, Medical Relief Project. |

Jodhpurgam, Satellite, Health Awareness for
Ahmedabad -380015, Women, likely to cost
(Gujarat). Rs. 2.66 crore.

2. This notification shall remain in force for a period of one year in relation to financial year 2006 - 2007 in respect of projects or schemes mentioned at serial number 9 and for a period of two years in relation to financial years 2006-2007 and 2007-2008 in respect of projects or schemes mentioned at serial numbers 2,4 and 15 and for a period of three years in relation to financial years 2006-2007, 2007-2008 and 2008-2009 in respect of projects or schemes mentioned at serial numbers 1, 3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18 and 19 of the said Table.

[F. No. 33/2007/E. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 235(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1045 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अरावली विकास मंडल, 402, मैत्री कॉ-ओपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी, गोलंकी मिल रोड, परेल मुम्बई-400012 द्वारा अरावली चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र अरावली जिला सिंधु दुर्ग, महाराष्ट्र में कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, भवन निर्माण, उपकरणों/यंत्रों की खरीद, साजसज्जा की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 1 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं० सां० आ० 144 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के चार वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरावली विकास मंडल, 402, मैत्री कॉ-ओपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी, गोलंकी मिल रोड, परेल मुम्बई-400012 द्वारा चलाई जा रही अरावली चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र

अरावली जिला सिंधु दुर्ग, महाराष्ट्र में कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, भवन निर्माण, उपकरणों/यंत्रों की खरीद, साजसज्जा की परियोजना या स्कीम को 548.90 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 34/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डॉ. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 235(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.308(E) dated the 11th May, 1999, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7, for running of six education center, mobile medical unit and construction of low-cost houses under Palli Unnayan Prkalpa Project, Near Contai Town, Midnapore, West Bengal by Ramakrishna Mission Sevashrama, P.O. Contai, District-Midnapore, West Bengal-721401 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment years 2000-2001 and which was extended further vide notification number S.O.898(E) dated the 5th August, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas by notification number S.O.898(E) dated the 5th August, 2003 the estimated cost was enhanced from Rs.5.00 lakhs to Rs.10.36 lakhs;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for running of six education center, mobile medical unit and construction of low-cost houses under Palli Unnayan Prkalpa Project, Near Contai Town, Midnapore, West Bengal which is being carried out by Ramakrishna Mission Sevashrama, P.O. Contai, District-Midnapore, West Bengal-721401, without any change in the approved cost of Rs. 10.36 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from the financial year 2006-2007 and financial year 2005-06 is already over and no donation can be collected for that financial year..

[F. No. 34/2007/F. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

०

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 236(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 अगस्त, 1994 की अधिसूचना सं० सां० आ० 611 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सहयोग कुष्ठयज्ञ ट्रस्ट, राजेन्द्रनगर ताल-हिमालनगर, जिला, साबरकांथा, गुजरात - 383276 द्वारा गुजरात, जिला साबरकांथा, राजेन्द्रनगर में कुष्ठ निवारण, कुष्ठ पीड़ितों एवं उनके बच्चों का पुनर्वास और ग्रामीण स्वास्थ्य की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 1 पर 1995-1996 से शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० 211 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 26 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं० 413 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था और जिसे आगे दिनांक 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं० 351 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था ;

और जबकि दिनांक 26 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 413 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 90.7 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.70 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 1.30 करोड़ रुपए किया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्षों से अधिक बढ़ाए जाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 1.70 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित “ 1.30 करोड़ रुपए” से संशोधित कर “2.60 करोड़ रुपए” के कार्पस निधि सहित 2.70 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) सहयोग कुष्ठयज्ञ ट्रस्ट, राजेन्द्रनगर ताल-हिमालनगर, जिला साबरकांथा, गुजरात - 383276 द्वारा गुजरात, जिला साबरकांथा, राजेन्द्रनगर में चलाई जा रही कुष्ठ निवारण, कुष्ठ

पीडितों एवं उनके बच्चों का पुनर्वास और ग्रामीण स्वास्थ्य की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) और दिनांक 23 अगस्त, 1994 की अधिसूचना सं० सां० आ० 611 (अ०) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 1 के सामने, धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम (4) में अक्षर, अंक और शब्द. “ 1.70 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 1.30 करोड़ रुपए ” के स्थान पर “ 2.70 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 2.60 करोड़ रुपए ” अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 35/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 236(E).— Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 606(E) dated the 7th June, 2002, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 3, for Construction and running of Destitute Centre at Bhilarewadi, Katraj, Pune by Janaseva foundation Indulal Complex Above Rupee Co-Op. Bank, Navi Peth, L.B.S. Road, Pune-411030 as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 2002-2003 and which was extended further vide notification number S.O. 1247(E) dated the 30th October, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Construction and running of Destitute Centre at Bhilarewadi, Katraj, Pune which is being carried out by Janaseva foundation Indulal Complex Above Rupee Co-Op. Bank, Navi Peth, L.B.S. Road, Pune-411030, without any change in the approved cost of Rs. 118.48 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from the financial year 2006-2007.

[F. No. 35/2007/F. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

52067/07-4

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 237(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 अगस्त, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 676 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने एस ओ एस चिल्ड्रेन विलेज ऑफ इंडिया-चैतनाथ होम्स 7, राजा कृष्णा राव रोड, तियनाम्पेट, चेन्नई-600018 द्वारा ताम्बरम ईस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु में स्कूल भवन निर्माण और एस ओ एस चिल्ड्रेनस विलेज को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 8 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं० 568 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं० 793 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 60.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 105.00 लाख रुपए करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) एस ओ एस चिल्ड्रेन विलेज ऑफ इंडिया-चैतनाथ होम्स 7, राजा कृष्णा राव रोड, तियनाम्पेट, चेन्नई-600018 द्वारा ताम्बरम ईस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु में चलाई जा रही स्कूल भवन निर्माण और एस ओ एस चिल्ड्रेनस विलेज को चलाने परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 10 अगस्त, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 679 (अ०) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 8 के सामने, धारा 35 के ग के के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम (4) में अक्षर, अंक और शब्द “60 लाख रुपए” के स्थान पर “ 105.00 रुपए” अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 36/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 237(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 1267(E) dated the 28th December, 2001, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, for running of free medical services by Dardi Sahayak Trust at whole of Gujarat by Smt. Ushaben Rasiklal Shaw Digvijay Lion Dardi Sahayak Trust, 5, Vishranti Gruh, Opp. Civil Hospital, Ahmedabad-380016 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 and which was extended further vide notification number S.O. 783(E) dated the 5th July, 2004 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years and enhancing the project cost from Rs. 51,00,000 to Rs. 1,02,00,000;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

(a) hereby specifies the scheme or project for running of free medical services by Dardi Sahayak Trust at whole of Gujarat, which is being carried out by Smt. Ushaben Rasiklal Shaw Digvijay Lion Dardi Sahayak Trust, 5, Vishranti Gruh, Opp. Civil Hospital, Ahmedabad-380016 as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from the financial year 2007-2008; and

(b) further amends the said notification number S.O. 1267(E) dated the 28th December, 2001, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 5, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word “Rs. 51,00,000”, the letters, figures and word “Rs. 1,02,00,000” shall be substituted.

[F. No. 36/2007/F. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 238(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 54 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सटरलाइट फाउंडेशन, 113, समुद्र महल, ऐनीबेसेंट रोड, वर्ली, मुम्बई द्वारा 386 केन्द्रों पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रम और सिलाई की कक्षाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने एवं चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 14 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं० 635 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 23 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं० 221 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था ;

और जबकि दिनांक 22 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 62(अ०) द्वारा मौजूदा प्रविष्टि “ स्थापना और अनुमानित लागत को 4.56 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये” बढ़ाया गया था तथा दिनांक 1 जून, 2004 की अधिसूचना सं० सां० आ० 649(अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 1063.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 1201.60 लाख से बढ़ाकर 7242.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 8372.60 लाख रुपये बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सटरलाइट फाउंडेशन, 113, समुद्र महल, ऐनाबेसेंट रोड, वर्ली, मुम्बई द्वारा

चलाई जा रही 386 केन्द्रों पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रम और सिलाई की कक्षाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने एवं चलाने की परियोजना या स्कीम को 7242.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 8372.62 रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 37/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION.

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 238(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 1045(E) dated the 18th October, 2001, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, for construction of building, residential quarters for staff, purchase of equipments/machines, furnishing of Aravali Medical and Research Centre at Aravali, District Sindhidurg, Maharashtra by Aravali Vikas Mandal, 302, Maitri Cooperative Housing Society, Golangi Mill Road, Parel, Mumbai-400012 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 and which was extended further vide notification number S.O. 144(E) dated the 3rd February, 2006 for a period of one year beginning with assessment year 2005-2006;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond four years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for construction of building, residential quarters for staff, purchase of equipments/machines, furnishing of Aravali Medical and Research Centre at Aravali, District Sindhidurg, Maharashtra which is being carried out by Aravali Vikas Mandal, 302, Maitri Cooperative Housing Society, Golangi Mill Road, Parel, Mumbai-400012, without any change in the approved cost of Rs. 548.90 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[F.No. 37/2007/F. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 239(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 523 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गुरु नानक क्वीन सेन्टनरी मेमोरियल हास्पिटल ट्रस्ट, प्लॉट सं०-एस.341, गां धी नगर, बांद्रा(पूर्व), मुम्बई-400 051 द्वारा भवन निर्माण विस्तार, औजारो, फर्नीचर की खरीद, भवन का नवीनीकरण/मरम्मत और परियोजना को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 2 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरु नानक क्वीन सेन्टनरी मेमोरियल हास्पिटल ट्रस्ट, प्लॉट सं० एस.-341, गांधी नगर, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400 051 द्वारा भवन निर्माण विस्तार, औजारो, फर्नीचर की खरीद, भवन का नवीनीकरण/मरम्मत और परियोजना को चलाने की परियोजना या स्कीम को 418.00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 547.92 लाख रूपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 38/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 239(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 469(E) dated the 2nd July, 1996, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act,

1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 14, for (a) Medical Camp in rural areas; (b) Creation of employment for rural population for Leprosy affected and Leprosy cured; (c) Educational help to kids of Leprosy affected families; (d) Deformity care of leprosy patients-free aids and appliances; (e) Health Education for removal of social stigma from society and diagnose of leprosy patients at an early stage; in whole of Gujarat, by Gujarat Raktapitt Nivaran Seva Sangh, Junigadhi, Near Municipal Quarters, Mill Road, Yakutpura, Vadodara-390006 (Gujarat) as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.744(E) dated the 10th September, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 and which was extended further vide notification number S.O.610(E) dated the 7th June, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years and enhancing the project cost from Rs.26.97 lakhs to Rs. 40.00 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby-

(a) specifies the scheme or project for (a) Medical Camp in rural areas; (b) Creation of employment for rural population for Leprosy affected and Leprosy cured; (c) Educational help to kids of Leprosy affected families; (d) Deformity care of leprosy patients-free aids and appliances; (e) Health Education for removal of social stigma from society and diagnose of leprosy patients at an early stage; in whole of Gujarat, which is being carried out by Gujarat Raktapitt Nivaran Seva Sangh, Junigadhi, Near Municipal Quarters, Mill Road, Yakutpura, Vadodara-390006 (Gujarat) as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from the financial year 2006-2007 as the financial year 2005-2006 is already over and no donation can be collected for that financial year; and

(b) further amends the said notification number S.O.469(E) dated the 2nd July, 1996, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 14, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs.26.97 lakhs", the letters, figures and word "Rs. 40.00 lakhs" shall be substituted.

[F. No. 38/2007/F. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 240(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 862 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने नारायण सेवा संस्थान, “सेवा धाम”, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान-313002 द्वारा हिरण मगरी, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान में पोलियो हास्पिटल को चलाने, पुनर्वास और अनुसंधान केन्द्र की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 2 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं० 508 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं० 785 (अ०) द्वारा कर वित्तीय वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं० 1013 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2006-2007 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं० सां० आ० 785 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 4.91 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 2.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10 करोड़ रुपये कर दिया गया था ।

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 2.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10.00 करोड़ रु० से बढ़ाकर 34,23,86,748.00 रु० करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारायण सेवा संस्थान, “सेवा धाम”, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान-313002 द्वारा चलाई जा रही हिरण मगरी, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान में पोलियो हास्पिटल को चलाने, पुनर्वास और अनुसंधान केन्द्र की परियोजना या स्कीम को एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है तथा दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 की उक्त अधिसूचना सं० सां० आ० 862 (अ०) में निम्नलिखित प्रभाव से आगे संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 2 के सामने, धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम (4) में अक्षर, आंकड़े व शब्दों के लिए “2.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10.00 करोड़ रु० के स्थान पर 2.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 34,23,86,748.00 रु०” अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 39/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 240(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 258(E) dated the 22nd March, 2001, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7, for construction of building, furnishing, purchase of equipments, water works of Kailas Cancer Hospital and Research Centre at District Vadodara, Gujarat by Muni Seva Ashram, Goraj- 391760, Tal. Vaghodia, District Vadodara, Gujarat as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 and which was extended further vide notification number S.O. 1130(E) dated the 29th September, 2003 for a period of three year beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for construction of building, furnishing, purchase of equipments, water works of Kailas Cancer Hospital and Research Centre at District Vadodara, Gujarat which is being carried out by Muni Seva Ashram, Goraj- 391760, Tal. Vaghodia, District Vadodara, Gujarat, without any change in the approved cost of Rs. 2118.67 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[F. No. 39/2007/F. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

52067/07-6

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 241(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 469 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गुजरात रक्तपित निवारण सेवा संघ, जुनीगढ़ी, नजदीक नगर पालिका क्वार्टर्स मिल रोड, चकुटपुरा बडोदरा-390006 गुजरात द्वारा सम्पूर्ण गुजरात में (क) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा शिवर (ख) कुष्ठ प्रभावित और कुष्ठ उपचारित के लिए ग्रामीण जनसंख्या हेतु रोजगार का सृजन (ग) कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता (घ) कुष्ठ रोगियों के विकलांगता की देख रेख के लिए मुफ्त सहायता और उपकरण (ङ.) समाज में सामाजिक कलंक को दूर करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और आरम्भिक अवस्था में कुष्ठ रोगियों का उपचार करने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 14 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 10 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 744 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 7 जून, 2002 की अधिसूचना सं० 610 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 26.97 लाख रुपये से बढ़ाकर 40.00 लाख रु० करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) गुजरात रक्तपित निवारण सेवा संघ, जुनीगढ़ी, नजदीक नगर पालिका क्वार्टर्स मिल रोड, चकुटपुरा बडोदरा-390006 गुजरात द्वारा चलाई जा रही सम्पूर्ण गुजरात में (क) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा शिवर (ख) कुष्ठ प्रभावित और कुष्ठ उपचार के लिए ग्रामीण जनसंख्या हेतु रोजगार का सृजन (ग) कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता (घ) कुष्ठ रोगियों के विकलांगता की देख रेख के लिए मुफ्त सहायता और उपकरण (ङ.) समाज में सामाजिक कलंक को दूर करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और आरम्भिक अवस्था में कुष्ठ रोगियों का उपचार करने की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की

अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; जबकि वित्तीय वर्ष 2005-2006 पहले समाप्त हो गया है और उस वित्तीय वर्ष के लिए कोई भी अनुदान एकत्र नहीं किया जा सकता है और

(ख) दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 469 (अ०) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 14 के सामने, धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम (4) में “26.97 लाख रुपये” से बढ़ाकर “40.00 लाख रु०” अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 40/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डॉ. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 241(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 698(E) dated the 3rd October, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, for Construction and running of hospital at Mount Abu, District Sirohi, Rajasthan, by Global Hospital & Research Centre, 102, Om Shanti, 48, Swastik Society, N.S. Road No.3, Vile Parle (W), Mumbai-400003 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 which was extended further vide notification number S.O. 863(E) dated the 21st September, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 and which was extended further vide notification number S.O. 1126(E) dated the 29th September, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancing the project cost from Rs. 61.27 lakhs plus a corpus fund of Rs. 500.00 lakhs to Rs. 1361.27 lakhs including a corpus fund of Rs. 500.00 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby -

(a) specifies the scheme or project for Construction and running of hospital at Mount Abu, District Sirohi, Rajasthan, which is being carried out by Global Hospital & Research Centre, 102, Om Shanti, 48, Swastik Society, N.S. Road No.3, Vile Parle (W), Mumbai-400003 as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007; and

(b) further amends the said notification number S.O.698(E) dated the 3rd October, 1997, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 8, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs.61.27 lakhs plus a corpus fund of Rs. 500.00 lakhs", the letters, figures and words "Rs. 1361.27 lakhs including a corpus fund of Rs.500.00 lakhs" shall be substituted.

[F.No.40/2007/F.No.NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 242(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 28 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1267 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती उषाबेन रसिक लाल शा दिग्विजय लायन दारडी सहायक ट्रस्ट, 5, विश्रान्ति गृह सिविल होस्पिटल के सामने, अहमदाबाद-380016 द्वारा सम्पूर्ण गुजरात में दारडी सहायक ट्रस्ट द्वारा मुफ्त चिकित्सा सेवाएं चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 1 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं० सां० आ० 783 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्ष की अवधि के लिए और परियोजना लागत को "51,00,000 रु०" से बढ़ाकर "1,02,00,00 रु०" करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) सम्पूर्ण गुजरात में दारडी सहायक ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही मुफ्त चिकित्सा सेवाओं की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2007-2008 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है; और

(ख) दिनांक 28 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1267 (अ०) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 5 के सामने, धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम (4) में “ 51,00,000/-रु०” को बढ़ाकर 1,02,00,000 रुपए अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 41/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 242(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 1365(E) dated the 27th November, 2003, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 4, for Education and Health support Scheme for Children of poor and socially marginalized class by Nav Bharat Jagriti Kendra, Head Office Village Bahera, PO Brindavan Via Chouparan, District Hazaribag- (Jharkhand) as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Education and Health support Scheme for Children of poor and socially marginalized class which is being carried out by Nav Bharat Jagriti Kendra, Head Office Village Bahera, PO Brindavan Via Chouparan, District Hazaribag- (Jharkhand), without any change in the approved cost of Rs. 39.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[F. No. 41/2007/F. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

52007/07-7

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 243(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 जून, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 606 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने जनसेवा फाउंडेशन इंदूलाल कॉम्पलेक्स, ऊपर रूपी सहकारी बैंक, नवी पेठ, एल०बी०एस० रोड, पुणे-411030 द्वारा भिलारवाडी, काटराज, पुणे में निर्माण और निराश्रित केन्द्र को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 3 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1247 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के पांच वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनसेवा फाउंडेशन इंदूलाल कॉम्पलेक्स, ऊपर रूपी सहकारी बैंक, नवी पेठ, एल०बी०एस० रोड, पुणे-411030 द्वारा चलाई जा रही भिलारवाडी, कटराज, पुणे में निर्माण और निराश्रित केन्द्र को चलाने की परियोजना या स्कीम को 118.48 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 42/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 243(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 839(E) dated the 22nd November, 1994, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12, for Running of Arpan Eye Bank at Ghatkopar(E), Bombay, by Arpan Trust, 2, Poonam, 160, R.B. Mehta

Marg, Ghatkopar (E), Bombay-400077 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1995-1996 which was extended further vide notification number S.O.212(E) dated the 17th March, 1997 for a period of three years beginning with assessment year 1998-99 which was extended further vide notification number S.O.855(E) dated the 21st September, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 and which was extended further vide notification number S.O.1254(E) dated the 30th October, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas by notification number S.O.855(E) dated the 21st September, 2000 the estimated cost was enhanced from Rs.4.56 lakh to Rs.7.5 lakh and vide notification number S.O.1254(E) dated the 30th October, 2003 the estimated cost was enhanced from Rs.7.5 lakh to Rs.13.50 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from "Rs.13.50 lakh" to "Rs. 27.00 lakh";

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby -

(a) specifies the scheme or project for Running of Arpan Eye Bank at Ghatkopar(E), Bombay, which is being carried out by Arpan Trust, 2, Poonam, 160, R.B. Mehta Marg, Ghatkopar (E), Bombay-400077 as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007; and

(b) further amends the said notification number S.O. 839(E) dated the 22nd November, 1994, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 12, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs.13.50 lakh", the letters, figures and word "Rs. 27.00 lakh" shall be substituted.

[F.No. 42/2007/F.No.NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 244(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 308 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, डाकघर कोटाई, जिला-मिदनापोर, पश्चिम

बंगाल-721401 द्वारा कोटाई टाऊन के नजदीक मिदनापोर, पश्चिम बंगाल में पल्ली उन्नयन प्रकल्प परियोजना के अंतर्गत छह शिक्षा केन्द्र चलाने, चलती-फिरती चिकित्सा इकाई और सस्ते मकानों का निर्माण कार्य की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 7 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 5 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं० 898 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 5 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं० सां० सां० आ० 898 (अ०) द्वारा अनुमोदित लागत को 5.00 लाख रुपये से बढ़ा कर 10.36 लाख रुपये बढ़ाया गया था

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, डाकघर कोटाई जिला-मिदनापोर, पश्चिम बंगाल-721401 द्वारा चलाई जा रही कोटाई, टाऊन के नजदीक मिदनापोर, पश्चिम बंगाल में पल्ली उन्नयन प्रकल्प परियोजना के अंतर्गत छह शिक्षा केन्द्र चलाने, चलती-फिरती चिकित्सा इकाई और सस्ते मकानों का निर्माण कार्य की परियोजना या स्कीम को 10.36 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है और वित्तीय वर्ष 2005-06 पहले ही समाप्त है और उस वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान एकत्र नहीं किया जा सकता है ।

[फा. सं. 43/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 244(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 497(E) dated the 26th May, 2000, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7, for Expansion

Project – purchase of equipments for increasing number of free eye surgeries and running of Hospital at Village – Ognaj, Ahmedabad, Gujarat by Lions Club of Karnavati Foundation, AT & Post – Village Ognaj, Village-Ognaj, District – Ahmedabad-382421 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 and which was extended further vide notification number S.O.528(E) dated the 9th May, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Expansion Project – purchase of equipments for increasing number of free eye surgeries and running of Hospital at Village – Ognaj, Ahmedabad, Gujarat which is being carried out by Lions Club of Karnavati Foundation, AT and Post – Village Ognaj, Village-Ognaj, District – Ahmedabad-382421, without any change in the approved cost of Rs. 437.50 lakhs (including a corpus fund of Rs. 150.00 lakhs), as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[F.No. 43/2007/F.No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 245(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 मई, 2004 की अधिसूचना सं० सां० आ० 604 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दीपक चेरिटेबल ट्रस्ट, 9-10, कुंज सोसाइटी, अल्हापुरी, बडोदरा-390007 द्वारा सुरक्षित मातृत्व और बच्चों की देखभाल की परियोजना को क्रम वित्तीय वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 12 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

52067/07-8

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपक चेरिटेबल ट्रस्ट, 9-10, कुंज सोसाइटी, अल्कापुरी, बडोदरा-390007 द्वारा चलाई जा रही सुरक्षित मातृत्व और बच्चों की देखभाल की परियोजना या स्कीम को 24.96 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 44/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 245(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 611(E) dated the 23rd August, 1994, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, for Leprosy eradication, rehabilitation of leprosy afflicted and their children and rural health at Rajendranagar, Distt. Sabarkantha, Gujarat, by Sahyog Kushthayagna Trust, Rajendranagar Tal-Himalnagar, District Sabarkantha, Gujarat-383276 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1995-1996 which was extended further vide notification number S.O. 211(E) dated the 17th March, 1997 for a period of three years beginning with assessment year 1998-99 which was extended further vide notification number S.O. 413(E) dated the 26th April, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 and which was extended further vide notification number S.O. 351(E) dated the 31st March, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas by notification number S.O. 413(E) dated the 26th April, 2000 the estimated cost was enhanced from Rs. 90.7 lakhs to Rs. 1.30 crore plus a corpus fund of Rs. 1.70 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancing the project cost from Rs. 1.30 crore plus a corpus fund of Rs. 1.70 crore, to Rs. 2.60 crore plus a corpus fund of Rs. 2.70 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby -

(a) specifies the scheme or project for Leprosy eradication, rehabilitation of leprosy afflicted and their children and rural health at Rajendranagar, Distt. Sabarkantha, Gujarat, which is being carried out by Sahyog Kushthayagna Trust, Rajendranagar Tal-Himalnagar, District Sabarkantha, Gujarat-383276, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007; and

(b) further amends the said notification number S.O. 611(E) dated the 23rd August, 1994, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 1, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word, "Rs.1.30 crore plus a corpus fund of Rs.1.70 crore", the letters, figures and word "Rs. 2.60 crore plus a corpus fund of Rs.2.70 crore" shall be substituted.

[F. No. 44/2007/F. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 246(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 22 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 258 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मुनि सेवा आश्रम, गोरज-391760, तालुका वघोदिया, जिला वड़ोदरा, गुजरात द्वारा जिला वड़ोदरा गुजरात में कैलाश कैंसर हास्पिटल और रिसर्च केन्द्र, जिला वड़ोदरा में भवन का निर्माण, साजसज्जा, उपकरणों की खरीद, वॉटर वर्क्स की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 7 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं० 1130 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुनि सेवा आश्रम, गोरज-391760, तालुका वघोदिया, जिला वड़ोदरा, गुजरात द्वारा जिला वड़ोदरा में चलाई जा रही कैलाश कैंसर हास्पिटल और रिसर्च केन्द्र, भवन का निर्माण, साजसज्जा, उपकरणों की खरीद, वॉटर वर्क्स की परियोजना या स्कीम को 2118.67 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 45/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 246(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 676(E) dated the 10th August, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, for Construction of a school building and running of SOS Children's Village at Tamvaram East, Chennai, Tamil Nadu by SOS Children's Villages of India-Chatnath Homes, 7, Raja Krishna Rao Road, Teynampet, Chennai-600018 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O. 568(E) dated the 20th June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 and which was extended further vide notification number S.O. 793(E) dated the 5th July, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancing the project cost from Rs. 60.00 lakhs, to Rs. 105.00 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby -

(a) specifies the scheme or project for Construction of a school building and running of SOS Children's Village at Tamvaram East, Chennai, Tamil Nadu, which is being carried out by SOS Children's Villages of India-Chatnath Homes, 7, Raja Krishna Rao Road, Teynampet, Chennai-600018, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007; and

(b) further amends the said notification number S.O. 676(E) dated the 10th August, 1998, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 8, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word, "Rs. 60.00 lakhs", the letters, figures and word "Rs. 105.00 lakhs" shall be substituted.

[F. No. 45/2007/F. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 247(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 27 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1365 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने नव भारत जाग्रती केन्द्र मुख्य कार्यालय ग्राम बेहरा,

डाकखाना बिन्दावन मार्फत चौपारन, जिला हजारीबाग(झारखंड) द्वारा सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गरीब बच्चों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहायता परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 4 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव भारत जाग्रती केन्द्र, मुख्य कार्यालय, ग्राम बेहरा, डाकखाना बिन्दावन मार्फत चौपारन, जिला हजारीबाग(झारखंड) द्वारा सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गरीब बच्चों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहायता परियोजना परियोजना या स्कीम को 39.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 46/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O.247(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.54(E) dated the 16th January, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 14, for Setting up and running of vocational training centers for computer courses and tailoring classes at 386 centres by Sterlite Foundation, 113, Samudra Mahal, Annie Besant Road, Worli, Mumbai, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 which was extended further vide notification number S.O.635(E) dated the 5th July, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 which was extended further vide notification number S.O.221(E) dated the 23rd February, 2004 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas by notification number S.O.62(E) dated the 22nd January, 2003 the existing entry "Setting up and estimated cost was enhanced from Rs.4.56 lakh to Rs.7.5 lakh and notification number S.O.649(E) dated the 1st June, 2004 the estimated cost was enhanced from Rs.1201.60 lakhs including a corpus fund of Rs.1063.00 to Rs. 8372.62 lakh including a corpus fund of Rs. 7242.00 lakh;

5206707-9

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Setting up and running of vocational training centers for computer courses and tailoring classes at 386 centres which is being carried out by Sterlite Foundation, 113, Samudra Mahal, Annie Besant Road, Worli, Mumbai, without any change in the approved cost of Rs.8272.62 lakh including a corpus fund of Rs.7242.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[F. No. 46/2007/F. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 248(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 698 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ग्लोबल हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, 102, ओम शान्ति, 48 स्वास्तिक सोयाइटी, एन०एस० रोड नं० 3, विले पार्ले (पश्चिम) मुम्बई-400003 द्वारा माऊंट आबू, जिला सिरोंही, राजस्थान में अस्पताल निर्माण और परिचालन की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 8 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 863 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं० 1126 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 500.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 61.27 लाख रुपये से बढ़ाकर 500.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 1361.27 लाख रु० करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) ग्लोबल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 102, ओम शान्ति, 48 स्वास्तिक सोयायटी, एन0एस0 रोड नं0 3, विले पार्ले (पश्चिम) मुम्बई-400003 द्वारा माऊंट आबू, जिला सिरोही, राजस्थान में चलाई जा रही अस्पताल निर्माण और परिचालन की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 698 (अ0) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 8 के सामने, धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम (4) में अक्षर, अंक तथा शब्द “500.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 61.27 लाख रुपये ” के लिए “ 500.00 रुपये की कार्पस निधि सहित 1361.27 लाख रु0 ” अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 47/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 248(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 523(E) dated the 9th May, 2003, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, for Construction of extension building, purchase of equipments, furniture, repairs/renovation of the buildings and running of the project by Guru Nanak Quin Centenary Memorial Hospital Trust, Plot No.- S-341, Gandhi Nagar, Bandra (East), Mumbai-400 051, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Construction of extension building,

purchase of equipments, furniture, repairs/renovation of the buildings and running of the project which is being carried out by Guru Nanak Quin Centenary Memorial Hospital Trust, Plot No.- S-341, Gandhi Nagar, Bandra (East), Mumbai-400 051, without any change in the approved cost of Rs.547.92 lakhs including a corpus fund of Rs.418.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[F. No. 47/2007/F. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 249(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 497 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने लायन्स क्लब ऑफ कर्णावती फाऊंडेशन, डाकखाना- गाँव आँगनाज, गाँव-आँगनाज, जिला अहमदाबाद-382421 द्वारा गाँव आगनाज, अहमदाबाद, गुजरात में परियोजना विस्तार-मुफ्त आँखों की सर्जरी की संख्या बढ़ाने हेतु उपस्करों की खरीद और हस्पताल को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 7 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं० 528 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लायन्स क्लब ऑफ कर्णावती फाऊंडेशन, डाकखाना- गाँव आँगनाज, गाँव-आँगनाज, जिला अहमदाबाद-382421 द्वारा गाँव आगनाज, अहमदाबाद, गुजरात में चलाई जा रही परियोजना विस्तार-मुफ्त आँखों की सर्जरी की संख्या बढ़ाने हेतु उपस्करों की खरीद और हस्पताल को चलाने की परियोजना या स्कीम को 150 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 437.50 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 48/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 249(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 862(E) dated the 12th December, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, for Running of Polio Hospital, Rehabilitation and Research Centre at Hiran Magri, Sector-4, Udaipur, Rajasthan by Narayan Seva Sansthan, "Seva Dham", Sector-4, Udaipur, Rajasthan-313002, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 which was extended further vide notification number S.O. 508(E) dated the 26th May, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 which was extended further vide notification number S.O. 785(E) dated the 5th July, 2004 for a period of three years beginning with Financial year 2003-2004 and which was extended further vide notification number S.O. 1013(E) dated the 5th July, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007;

And whereas by notification number S.O. 785(E) dated the 5th July, 2004 the the estimated cost was enhanced from Rs. 4.91 crore to Rs. 10.00 crore including a corpus fund of Rs. 2.00 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for enhancing the project cost from "Rs. 10.00 crore including a corpus fund of Rs. 2.00 crore, to Rs. 34,23,86,748.00;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Running of Polio Hospital, Rehabilitation and Research Centre at Hiran Magri, Sector-4, Udaipur, Rajasthan, which is being carried out by Narayan Seva Sansthan, "Seva Dham", Sector-4, Udaipur, Rajasthan-313002, as an eligible project or scheme for a further amends the said notification number S.O. 862(E) dated the 12th December, 1997, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 2, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word, "Rs. 10.00 crore including a corpus fund of Rs. 2.00 crore", to "Rs. 34,23,86,748.00 including a corpus fund of Rs. 2.00 crore" shall be substituted.

[F. No. 48/2007/F. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)

520 G7/07-10

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 250(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 22 नवम्बर, 1994 की अधिसूचना सं० सां० आ० 839 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अर्पण ट्रस्ट, 2 पूनम, 160, आर० बी० मेहता मार्ग, घाटकोपर (पूर्व) मुम्बई-400077 द्वारा घाटकोपर (पूर्व) मुम्बई में अर्पण आई बैंक चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 12 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 212 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 855 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, और जिसे बाद में दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1254 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 855 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 4.56 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दिया गया था और दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1254 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 13.50 लाख रुपये कर दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए और परियोजना लागत को “13.50 लाख रुपये” से बढ़ाकर 27.00 लाख रु० संशोधित करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) अर्पण ट्रस्ट, 2 पूनम, 160, आर० बी० मेहता मार्ग, घाटकोपर (पूर्व) मुम्बई-400077 द्वारा घाटकोपर (पूर्व) मुम्बई में चलाई जा रही अर्पण आई बैंक चलाने की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से आरम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ;

(ख) दिनांक 22 नवम्बर, 1994 की अधिसूचना सं० सां० आ० 839 (अ०) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 12 के सामने, धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम (4) में अक्षर, अंक तथा शब्द “ 13.50 लाख रुपये ” के लिए “ 27.00 लाख रु० ” अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 49/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 250(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 604(E) dated the 20th May, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12, for Safe motherhood and child survival project by Deepk Charitable Trust, 9-10, Kunj Society, Alkapuri, Baroda-390007, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with Financial year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Safe motherhood and child survival project which is being carried out by Deepk Charitable Trust, 9-10, Kunj Society, Alkapuri, Baroda-390007, without any change in the approved cost of Rs. 24.96 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[F. No. 49/2007/F. No. NC-274/4/2006]

D. P. SENGUPTA, Secy. (National Committee)